



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 वैशाख 1932 (श0)
(सं0 पटना 290) पटना, सोमवार, 26 अप्रील 2010

विधि विभाग

अधिसूचना

26 अप्रील 2010

एस0ओ0 84, दिनांक 26 अप्रील 2010—बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (अधिनियम 5/2010) की धारा-3 सहपठित बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 के नियम 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार सरकार, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई द्वारा अन्वेषण के आधार पर उक्त अधिनियम के अधीन संस्थित अननुपातिक आस्तियों के मामलों के त्वरित निपटारे तथा अवैध रूप से अर्जित अननुपातिक आस्तियों के अधिहरण के लिए पटना में दो, भागलपुर में दो एवं मुजफ्फरपुर में दो अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश के छः नव सृजित विशेष न्यायालयों को स्थापित करती है। इन छः न्यायालयों के पीठासीन पदाधिकारियों को एतद् द्वारा अधिनियम की धारा-13 के अधीन कर्तव्यों एवं कृत्यों के अनुपालन हेतु अधिनियम की धारा 2(ख) के अभिप्रेत के भीतर प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाता है।

2. इन विशेष न्यायालयों की अधिकारिता निम्नवत् निश्चित की जाती है:-

क्रमांक	विशेष न्यायालयों के नाम	अधिकारिता
1	विशेष न्यायालय, I पटना	पटना प्रमंडल का भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर एवं नालंदा जिला
2	विशेष न्यायालय, II पटना	पटना प्रमंडल एवं मगध प्रमंडल का पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद एवं अरवल जिला।
3	विशेष न्यायालय, I भागलपुर	भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल का भागलपुर, बांका, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई एवं मुंगेर जिला।

क्रमांक	विशेष न्यायालयों के नाम	अधिकारिता
4	विशेष न्यायालय, II भागलपुर	पूर्णिमाँ प्रमंडल एवं कोशी प्रमंडल, का पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल जिला।
5	विशेष न्यायालय, I मुजफ्फरपुर	तिरहुत एवं मुँगेर प्रमंडल का मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली एवं बेगूसराय जिला।
6	विशेष न्यायालय, II मुजफ्फरपुर	सारण एवं दरभंगा प्रमंडल का सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिला।

3. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-14/2006/1961/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।

26 अप्रील 2010

एस0ओ0 85, एस0 ओ0 84, दिनांक 26 अप्रील 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन इसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-14/2006/1961/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।

The 26th April 2010

S.O. 84, dated the 26th April 2010—In the exercise of powers conferred by section-3 of Bihar Special Courts Act, 2009 (Act 5 of 2010) read with rule 9 of Bihar Special Courts Rules, 2010, the Government of Bihar in consultation with the High Court of Judicature at Patna, do hereby, establish SIX NEWLY CREATED Special Courts of additional district and Sessions Judge, two at Patna, two at Bhagalpur and two at Muzaffarpur, for speedy disposal of Disproportionate Asset cases instituted under the aforesaid Act., on the basis of investigation made by the Vigilance Investigation Bureau and the Special Vigilance Unit and for confiscation of illegally acquired disproportionate Assets. The presiding officers of all these six courts are, hereby designated as 'Authorised Officers' within the meaning of section 2(b) of the Act to perform the duties and functions under section-13 of the Act.

(1) The Jurisdiction of these six Special Courts is determined as follows:-

Sl. No.	Name of the courts	Jurisdiction of the courts
1	The Special Court I, Patna	Bhojpur, Rohtas, Buxar, Kaimur and Nalanda Districts of Patna Division
2	The Special Court II, Patna	Patna, Gaya, Aurangabad, Nawada, Jehanabad, and Arwal Districts of Patna & Magadh Division
3	The Special Court I, Bhagalpur	Bhagalpur, Banka, Khagaria, Lakhisarai, Sheikhpura, Jamui and Munger Districts of Bhagalpur & Munger Division

Sl. No.	Name of the courts	Jurisdiction of the courts
4	The Special Court II, Bhagalpur	Purnea, Katihar, Araria, Kishanganj, Saharsa, Madhepura & Supaul Districts of Purnea & Koshi Division
5	The Special Court I, Muzaffarpur	Muzaffarpur, West Champaran, East Champaran, Sitamarhi, Sheohar, Vaishali and Begusarai Districts of Tirhut & Munger Division
6	The Special Court II, Muzaffarpur	Saran, Siwan, Gopalganj, Darbhanga, Madhubani & Samastipur Districts of Saran & Darbhanga Division

(2) This notification shall come into force at once.

(File No.-A/Act.-14/2006/1961/J)
By order of the Governor of Bihar,
RAJENDRA KUMAR MISHRA,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 290-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>